

Airbnb अब दोगुनी भाषाओं में

Airbnb ठहरने और घूमने-फिरने की अनोखी और भरोसेमंद जगहों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाज़ार है, जहाँ 7 मिलियन से भी ज़्यादा आवास और मेज़बानों के हाथों चुनकर तैयार की गई 40,000 गतिविधियाँ शामिल हैं और ये सभी सौगातें स्थानीय मेज़बान खुद मुहैया करवाते हैं। हर सेकंड तकरीबन छः मेहमान Airbnb की किसी न किसी लिस्टिंग में चेक इन करते हैं। ये चेक इन दुनिया भर में हो रही हैं : साल 2011 में, Airbnb में सिर्फ़ 12 शहर ऐसे थे जहाँ की लिस्टिंग 1,000 से ज़्यादा हुआ करती थीं; आज Airbnb में तकरीबन 1,000 शहर ऐसे हैं जहाँ की 1,000 से भी ज़्यादा लिस्टिंग मौजूद हैं। इसी तरह, साल 2011 में Airbnb पर सिर्फ़ एक शहर ऐसा था जहाँ 100,000 से ज़्यादा मेहमान आ कर ठहरे थे, जबकि पिछले साल 300 से भी ज़्यादा शहरों में मेहमानों की संख्या 100,000 से ज़्यादा रही।

एक ओर जहाँ दुनिया के 191 से भी ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में Airbnb का पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं हम अपने प्लैटफ़ॉर्म को ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों के लिए सुलभ बनाने के इरादे से लगातार काम कर रहे हैं। अल्बानियन से जुलू तक, हम सभी को Airbnb पर अपनापन महसूस करवाना चाहते हैं, चाहे वे कोई भी भाषा क्यों न बोलते हों।

आज हम उन भाषाओं की संख्या को बढ़ाकर दोगुनी कर रहे हैं, जिनमें मेज़बान और मेहमान Airbnb का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब Airbnb प्लैटफ़ॉर्म दुनिया की 62 भाषाओं में उपलब्ध है और 4 बिलियन मूल भाषा-भाषियों के लिए सुलभ हो गया है¹। इन नई भाषाओं के साथ, हम और भी ज़्यादा मेज़बानों को पैसे कमाने के मौके देने के साथ ही मेहमानों की पहले से भी बड़ी संख्या को स्थानीय, भरोसेमंद और अनोखी यात्रा का अनुभव आसानी से दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

जानें कि Airbnb पर कौन-कौन सी 31 नई भाषाएँ उपलब्ध हैं :

1. अंग्रेज़ी (ऑस्ट्रेलिया)
2. अंग्रेज़ी (कनाडा)
3. अंग्रेज़ी (युनाइटेड किंगडम)
4. अज़ेरी (अज़रबैजान)
5. अल्बानियन (अल्बानिया)
6. आर्मेनियन (आर्मेनिया)

¹ Ethnologue.com, अक्टूबर 2019; 62 भाषाओं में उपलब्ध Airbnb की पहुँच अब 4 बिलियन मूल भाषा-भाषियों तक हो गई है। इन 62 भाषाओं की मदद से हम कुल 4.3 बिलियन मूल भाषा-भाषियों तक अपनी पहुँच बढ़ा सकेंगे। (यानी हमारी मौजूदा 31 भाषाओं से 3.3 बिलियन लोगों तक और नई लॉन्च की जाने वाली 31 भाषाओं से 1 बिलियन लोगों तक पहुँच सकेंगे।)

7. आयरिश (आयरलैंड)
8. एस्तोनियन (एस्तोनिया)
9. कौसा (दक्षिण अफ्रीका)
10. जुलू (दक्षिण अफ्रीका)
11. जॉर्जियन (जॉर्जिया)
12. तगालोग (फ़िलिपींस)
13. पारंपरिक चीनी (हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)
14. फ्रेंच (कनाडा)
15. बोस्नियन (बोस्निया)
16. बुल्गारियन (बुल्गारिया)
17. मॉन्टेनेग्रिन (मॉन्टेनेग्रो)
18. माल्टीज़ (माल्टा)
19. मैसिडोनियन (उत्तर मैसिडोनिया)
20. रोमानियन (रोमानिया)
21. लातवियन (लातविया)
22. लिथुआनियन (लिथुआनिया)
23. स्पैनिश (अर्जेटीना)
24. स्पैनिश (लैटिन अमेरिका)
25. सर्बियन (सर्बिया)
26. स्लोवाक (स्लोवाकिया)
27. स्लोवेनियन (स्लोवेनिया)
28. स्वाहिली (अफ्रीका)
29. हिन्दी (भारत)
30. यूक्रेनियन (यूक्रेन)
31. वियतनामी (वियतनाम)

Airbnb वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करने वाले हमारे मेज़बान और मेहमान बड़ी आसानी से किसी नई भाषा पर स्विच कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर कोई भाषा चुनने के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें। हमारे मोबाइल ऐप, डिवाइस सेटिंग में चुनी गई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्विच करने के लिए, इस्तेमाल करने वालों को सिर्फ़ अपनी डिवाइस सेटिंग पर जा कर वह नई भाषा चुननी होगी, जो अब हमारी लिस्ट में उपलब्ध है।